



CITES स्थायी समिति की बैठक

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के जनिवा में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) की स्थायी समिति की 77वीं बैठक संपन्न हुई जिससे भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में आशाजनक विकास की संभावना है।

भारत के दृष्टिकोण से बैठक के प्रमुख परिणाम क्या हैं?

- **रेड सैंडर्स के लिये महत्त्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा (RST) से हटाना:** भारत वर्ष 2004 से **रेड सैंडर्स** के लिये महत्त्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा (RST) प्रक्रिया के अधीन था।
 - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से CITES स्थायी समिति किसी देश से किसी प्रजाति के निर्यात पर जाँच बढ़ाती है ताकि यह निरधारित किया जा सके कि कन्वेंशन ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं।
 - अनुपालन और मज़बूत रिपोर्टिंग के कारण भारत को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया है, जो देश के रेड सैंडर्स उत्पादकों के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
 - **रेड सैंडर्स** (टेरोकार्पस सैटालनिस), आंध्र प्रदेश के विशिष्ट ज़िलों में पाई जाने वाली एक वृक्ष प्रजाति है, जिसका बाज़ार मूल्य बहुत अधिक है और इसे अवैध कटाई तथा तस्करी के कारण खतरों का सामना करना पड़ा है।
- **CITES राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम में भारत की श्रेणी:** हाल की बैठक में भारत को श्रेणी 1 में रखने का निर्णय लिया गया क्योंकि इसने CITES राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन किया था।
 - CITES प्रावधान करता है कि प्रत्येक पार्टी CITES प्रावधानों को समायोजित करने के लिये अपने राष्ट्रीय कानून को संरेखित करे। पहले भारत को CITES राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम के लिये श्रेणी 2 में सूचीबद्ध किया गया था।
 - इसलिये वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को वर्ष 2022 में संशोधित किया गया, जिसमें CITES के प्रावधानों को अधिनियम में शामिल किया गया।
- **बड़ी बलिलियों के संरक्षण का आह्वान:** भारत ने बड़ी बलिलियों, विशेष रूप से एशियाई बड़ी बलिलियों के लिये कड़े संरक्षण उपायों का समर्थन किया, अन्य देशों और हतिधारकों से उनके संरक्षण के लिये इंटरनेशनल बगि कैट एलायंस (IBCA) में शामिल होने का आग्रह किया, जिससे अप्रैल 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरु किया गया था।

CITES क्या है?

- **परिचय:**
 - CITES, सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और पौधों की प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न न हो।
 - वर्तमान में CITES में 184 सदस्य हैं।
 - इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ और भारत वर्ष 1976 में 25वाँ भागीदार देश बन गया।
- **प्रवर्तनीयता:**
 - यद्यपि CITES पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिये कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता।
 - इसका मतलब यह है कि इसे तब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उस उद्देश्य के लिये विशिष्ट घरेलू उपाय नहीं अपनाए जाते।
 - इसलिये यह आवश्यक है कि CITES पार्टियों के पास कन्वेंशन के सभी पहलुओं को लागू करने और इसकी अनुमति देने वाला कानून हो।
- **CITES राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम:**
 - राष्ट्रीय कानूनों को CITES राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम के तहत इन सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
 - एक प्रबंधन प्राधिकरण और एक वैज्ञानिक प्राधिकरण नामित करना।
 - कन्वेंशन का उल्लंघन करने वाले व्यापार पर रोक लगाना।
 - ऐसे अवैध व्यापार को दंडित करना।

- अवैध रूप से व्यापार किये गए या रखे गए नमूनों को ज़ब्त करना ।
- संबंधित पक्ष से परामर्श करने के बाद CITES सचिवालय इन मानदंडों से संबंधित राष्ट्रीय कानून का आकलन करता है और इसे तीन श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत करता है:
 - श्रेणी 1: आमतौर पर CITES कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वधिन ।
 - श्रेणी 2: वधिन, आमतौर पर सभी CITES कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है ।
 - श्रेणी 3: वधिन, आमतौर पर CITES कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. समाचारों में कभी-कभी दिखाई देने वाले 'रेड सैंडर्स' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2016)

1. यह दक्षणि भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति है ।
2. यह दक्षणि भारत के उष्णकटबिधीय वर्षावन क्षेत्नों में अतमिहत्त्वपूर्ण वृक्षों में से एक है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- रेड सैंडर्स का भारतीय प्रायद्वीप के दक्षणि-पूर्वी हसिसे में अत्यधिक प्रतबिधिति वतिरण है, जसिमें यह स्थानकि है । **अत: कथन 1 सही है ।**
- रेड सैंडर्स (टेरोकार्पस सैंटालनिस) वन क्षेत्नों में होता है जसि दक्षणि उष्णकटबिधीय शुष्क पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत कया जाता है । **अत: कथन 2 सही नहीं है ।**

अत: वकिल्प (a) सही उत्तर है ।

प्रश्न. प्रकृत एवं प्राकृतकि संसाधनों के संरक्षण के लयि अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) तथा वन्य प्राणजात एवं वनस्पतजात की संकटापन्न स्पीशीज़ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभसिमय (CITES) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)

1. IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है ।
2. IUCN प्राकृतकि वातावरण के बेहतर प्रबंधन के लयि वशिव भर में हज़ारों क्षेत्-परयोजनाएँ चलाता है ।
3. CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकनि यह कन्वेंशन राष्ट्रीय वधियों का स्थान नहीं लेता है ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- प्रकृत एवं प्राकृतकि संसाधनों के संरक्षण के लयि अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) एक सदस्यता संघ है जो वशिष्ट रूप से सरकार तथा नागरकि समाज दोनों संगठनों से मलिकर बना है । वर्ष 1948 में गठित यह नैसर्गकि वशिव की स्थिति एवं इसे सुरक्षति रखने के लयि आवश्यक उपायों पर वैश्वकि प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है । IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, लेकनि न्यूयॉर्क में इसका संयुक्त राष्ट्र के लयि औपचारकि रूप से मान्यता प्राप्त स्थायी पर्यवेक्षक मशिन है । **अत: कथन 1 सही नहीं है ।**
- IUCN का लक्ष्य वशिव भर में समुदायों को प्रकृतकि अखंडता व वविधिता के संरक्षण के लयि प्रेरति करना, प्रोत्साहति करना एवं उनकी सहायता करना है तथा यह सुनिश्चति करना है कि प्राकृतकि संसाधनों का कोई भी उपयोग न्यायसंगत व आर्थकि रूप से संधारणीय हो ।
- इस उद्देश्य से यह प्राकृतकि वातावरण के बेहतर प्रबंधन के लयि वशिव भर में हज़ारों क्षेत्-परयोजनाएँ चलाता है । **अत: कथन 2 सही है ।**

- CITES (वन्य प्राणजात एवं वनस्पतजात की संकटापन्न स्पीशीज़ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभसिमय) सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणजात एवं वनस्पतजात की संकटापन्न स्पीशीज़ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो।
- हालाँकि CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय वधियों का स्थान नहीं लेता है। इसके बजाय इसके ज़रिये हर राज्य के लिये एक प्रारूप तैयार हो जाता है, जिससे वह अपने घरेलू कानून में शामिल करके CITES को राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वति कर सकता है। **अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cites-standing-committee-meeting>

